



मान्यता क्रमांक : एन जी / २००० / नमवि / (१ / २०००) भाशि ३ दि ३० जून २०००
॥ ज्ञान, चारित्र्य, सुरंरकार संवर्धन यासाठी शिक्षण ॥

कोरेगाव एज्युकेशन सोसायटी, कोरेगावचे

शंकरराव जगताप आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज



वाघोली ता. कोरेगाव जि. सातारा. फोन. (०२३७९) २५१७७५

संस्थापक : कै. शंकररावजी जगताप (प्राज्ञ विधानमंडळ अध्यक्ष, महागष्ट)

© अध्यक्ष: सौ. सुनिताताई जगताप ©
© अजिनदार: श्री. वतान्त्रय महाजन ©

© उपाध्यक्ष: श्री. भिमराव पाटील ©
© सहसचिव: श्री. चंद्रकांत विरकर ©

© ऑनररी सेक्रेटरी: श्री. गजानन बगाडे ©
© प्राचार्य: डॉ. चाय. बी. गांडे ©

Report of the Programme

Academic Year: 2018-19

- Type of the Programme: Curricular/Co-curricular/Extra-curricular
- Type of the Programme: Seminar/Conference/Workshop/Guest Lecture/Other
- Title of the Programme: Advertising Writing in Hindi
- Date: 14-09-2019 Time: 10 am to 1 pm
- Organising Dept./Committee/Cell: Leed college and Hindi Department
- Place: Wagholi
- Teacher Participants: 17
- Non-teaching Participants: 06
- Students Participants: 45
- Purpose: To make the staff and students know Advertising Writing in Hindi
- Outcome: Staff and students became aware of Advertising Writing in Hindi

Details of the Programme:

1. Introduction: Prof Ragde.P.R
2. Name of the Speaker: Dr. Bajirao Shelar Mo-No 9049578762
3. President: Principal Dr. Y.B. Gonde
4. Vote of Thanks: Dr. S.A. Patel
5. Anchoring: Prof R. V Karande

Description of the Programme:

The workshop has been organised to make the staff and students aware of importance of Advertising Writing in Hindi in life. The speaker delivered his speech by giving so many examples from real life which made audience aware about the Advertising Writing in Hindi. Feedback of the staff and students was exciting. As per the feedback, it is clear that the expected outcomes of the programme have been fulfilled.


Prof Ragde.P.R




Dr. Y.B. Gonde

PRINCIPAL
SHANKARRAO JAGTAP ARTS &
COMMERCE COLLEGE, WAGHOLI
Tal. Koregaon, Dist. Satara